



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 441]
No. 441]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 29, 1979/कार्तिक 7, 1901
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 29, 1979/KARTIKA 7, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर 1979

सम्पदा शुल्क

का० प्रा० 612(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पदा शुल्क नियम, 1953 में और संशोधन करने के लिए नियम बनाना चाहता है। जैसा कि उक्त उपधारा में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से बालीय दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से जो भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त होंगे, उन पर विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सम्पदा शुल्क (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. सम्पदा शुल्क नियम, 1953 में, प्रारूप सं० शु० 9ख में, टिप्पण 3 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“अपील का आपन अंग्रेजी में लिखा जाना चाहिए या, यदि अपील किसी ऐसे राज्य में स्थित न्यायपीठ के समक्ष फाइल की जाती है जो आयकर (अपील अधिकरण) नियम, 1963 के नियम 5क के प्रयोजनों के लिए अपील अधिकरण के सभापति द्वारा तत्समय अधिसूचित है तो अपीलार्थी के विकल्प के अनुसार हिन्दी में लिखी जानी चाहिए और उसमें अपील के आधारों की संक्षेप में तथा सुनिश्चित शीर्षों के अधीन, बिना तर्क या विवरण के, उपवर्णित किया जाना चाहिए और ऐसे आधारों की क्रमवार संख्याकित किया जाना चाहिए।”

[सं० 3051/फा०सं० 143(4)/78 टी पी एल]

एस० एन० शेन्डे, सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 1979

ESTATE DUTY

S.O. 612(E).—The following draft of certain rules further to amend the Estate Duty Rules, 1953, which the Central Board of Direct Taxes proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 85 of the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), is published as required

by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be taken into consideration.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Estate Duty (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Estate Duty Rules, 1953, in Form ED 9B, for Note 3, the following Note shall be substituted, namely :—

“3. The memorandum of appeal should be written in English or, if the appeal is filed in a Bench located in any such State as is for the time being notified by the President of the Appellate Tribunal for the purposes of rule 5A of the Income-tax (Appellate Tribunal) Rules, 1963, then, at the option of the appellant, in Hindi, and should set forth, concisely and under distinct heads, the grounds of appeal without any argument or narrative and such grounds should be numbered consecutively.”.

[No. 3051/F. No. 143(4)/78-TPL]

S. N. SHENDE, Secretary